

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: 922/XXIII/2018/04(01)/2018टी.सी.1
देहरादून: दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

अधिसूचना/संशोधन

शासन की अधिसूचना संख्या-250/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 तथा अधिसूचना संख्या-392/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 13 अप्रैल 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति के नियम-26 के विन्दु संख्या-4 " 5 स्टार कैटेगरी युक्त होटल या वह होटल जिनका प्रति कमरा प्रतिदिन किराया ₹ 15,000 या उससे अधिक हो " का एफ0एल0-6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन के लिए वर्ष या वर्ष के भाग हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क ₹ 15.00 लाख के स्थान पर ₹ 10.00 लाख एवं नीति के नियम-27 के कम संख्या-4 के अन्तर्गत क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिये) हेतु निर्धारित शुल्क में केवल प्रेस क्लब हेतु बार अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.50 लाख किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासन की अधिसूचना संख्या:-250/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 तथा अधिसूचना संख्या-392/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक 13 अप्रैल 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।


3. उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू समझी जाएगी।

(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 922/XXIII/2018/04(01)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री जी, को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, जिला-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, अपर मुख्य सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड़ देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
/s/ 
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव